

June 14, 2023

To,  
The BSE Limited,  
Corporate Relationship Department,  
Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400 001

Scrip Code: 500306  
ISIN: INE903A01025

**Sub.: Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations, 2015 (“SEBI LODR”) - Filing of copy of newspaper advertisement confirming completion of dispatch of Postal Ballot Notice**

**Ref: Intimation letter dated June 13, 2023, for dispatch of Notice of Postal Ballot**

Dear Sir(s)/ Madam,

In furtherance to the intimation as referred above, this is to inform that copies of the Postal Ballot Notice have been sent electronically to the members of the Company on June 13, 2023, for seeking approval of the members on the matters as set out thereunder.

Further, in compliance of Regulation 47(1) of SEBI LODR, please find enclosed copies of newspaper advertisements published today i.e. June 14, 2023, in the columns of English daily “Financial Express”, all editions and in Hindi “Jansatta’, Lucknow edition.

This disclosure will also be hosted on the Company's website viz. [www.jaykayenterprises.com](http://www.jaykayenterprises.com).

You are requested to take the same on record.

Thanking you

Yours Faithfully,  
**For Jaykay Enterprises Limited**

**Yogesh Sharma**  
Company Secretary and Compliance Officer  
Membership No.: A29286

**Encl.: As above**



### AUTOMOTIVE AXLES LIMITED

(IATF 16949 : 2016 Company)  
CIN: L51909KA1981PLC004198

Regd. Office: Hootagalli Industrial Area, Off Hunsur Road, Mysuru, Karnataka – 570 018  
Email: [sec@autoaxle.com](mailto:sec@autoaxle.com) Website: [www.autoaxle.com](http://www.autoaxle.com)

#### NOTICE

**NOTICE** is hereby given that in compliance with the provisions of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("Rules") and section 124(6) of the Companies Act, 2013 the Company is mandated to transfer all such shares in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years or more to the Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Notice is further given that in accordance with the provisions of the Rule, individual notice has been sent to the respective shareholders at their latest available address in the Companies/Registrar and Share Transfer (RTA) records, inter alia providing the details of shares being transferred to IEPF and the list of such shareholders is also displayed on the website of the Company at [www.autoaxle.com](http://www.autoaxle.com).

The Concerned shareholders are requested to claim the unpaid/unclaimed dividend amount(s) on or before **September 15, 2023**, for the F.Y 2015-16 and onwards failing which such shares shall be transferred to IEPF. The shareholders may note that upon such transfer, both the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by those shareholders from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under the "Rules".

For further information to claim the unpaid/unclaimed dividend(s) the concerned shareholders may contact the RTA of the company:

Mr. Harish K, Senior Manager  
Integrated Registry Management Services Private Limited  
No.30, Ramana Residency, 4th Cross, Sampige Road, Malleshwaram, Bengaluru- 560 003  
Phone: +91 8023460815-818 Fax: +91 8023460819  
Email id: [irg@integratedindia.in](mailto:irg@integratedindia.in)

For Automotive Axles Limited  
Sd/-  
Debadasa Panda  
Nodal Officer & Company Secretary

Place: Mysuru  
Date : 13<sup>th</sup> June, 2023



### VICEROY BANGALORE HOTELS PRIVATE LIMITED

#Plot No. 20, Sector-1, 4th Floor, HUDA Techno Enclave, Sy.No.64, Madhapur, Hyderabad-500 081  
CIN: U55010TG2010PTC067088

#### STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023

(All amounts in INR thousands)

PARTICULARS	Quarter Ended		Year Ended	
	31 March, 2023 Audited	31 December, 2022 Unaudited	31 March, 2023 Audited	31 March, 2022 Audited
Total Income	1,87,648	1,60,141	74,690	6,49,229
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items#)	(38,454)	(41,585)	(2,64,317)	(3,69,098)
Net Profit / (Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(38,454)	(41,585)	(2,64,317)	(3,69,098)
Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	(38,635)	(41,585)	(2,64,317)	(3,69,279)
Paid up Equity Share Capital	2,55,842	2,55,842	2,55,842	2,55,842
Reserves excluding revaluation reserve as per balance sheet	(17,16,194)	(16,40,823)	(13,10,178)	(17,16,194)
Net worth	(14,60,352)	(13,84,981)	(10,54,336)	(14,60,352)
Paid up debt capital	45,52,057	45,52,058	45,42,694	45,52,057
Earnings per share				
- Basic	(1.50)	(1.63)	(10.33)	(14.43)
- Diluted	(1.50)	(1.63)	(10.33)	(14.43)

**Notes:**

1) The above is an extract of the detailed format of the quarter and year ending financial results for March 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 52 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

2) These financial results have been prepared in accordance with IND AS under Section 133 of Companies Act 2013 (read with relevant rules there under) and in terms of Regulation 52 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended).

3) In August 2022, pursuant to an application made by a Financial Creditor ("FC") of the Company, the Hon'ble National Company Law Tribunal, Hyderabad Bench ("NCLT"), vide its order dated 05 August, 2022 in Company Petition No. (IB) 88/2022 ("Insolvency Commencement Order") has initiated Corporate Insolvency Resolution Process ("CIRP") under Section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 ("IBC") and appointed Mr. Kuresh Hatim Khambati as Interim Resolution Professional ("IRP") in terms of the IBC. Appointment of IRP was confirmed as Resolution professional ("RP") by the Committee of Creditors ("COC") vide resolution passed in the E-Voting concluded on 20 September 2022, in their first meeting held on 15 September 2022.

Subsequently, the NCLT vide its Order dated 22 May 2023, approved the Resolution Plan submitted by Dharampal Satyapal Limited (RA) for the revival of the Corporate Debtor. The approved Resolution Plan, dated 30 January 2023 and amended on 30 March 2023, is binding on the Company, its employees, members, creditors, and other stakeholders. With the approval of the Resolution Plan, the CIRP process of the Company concluded, and the RP demitted office.

In light of the approval of the Approved Resolution Plan, Monitoring Committee ("MC") has been constituted comprising of 1 representative of FC and 1 representatives of the RA. The MC is currently managing the operations of the Company and monitoring the implementation of the Approved Resolution Plan.

The above financials results are also available on the stock exchanges website i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and the Company's website [www.vbhp.com](http://www.vbhp.com)

For Viceroy Bangalore Hotels Private Limited  
Sd/-  
Mercy Mathew  
Director

Place : Hyderabad  
Date: 13 June 2023

### SHRIRAM PROPERTIES LIMITED

CIN: L72200TN2000PLC044560

Registered Office: Lakshmi Neela Rite Choice Chamber, New No.9 - Bazullah Road, T.Nagar, Chennai - 600017;  
Corporate Office: Shirram House, No.31, T. Chowdaiah Road, 2nd Main, Sadashiva Nagar, Bengaluru - 560080;  
Website: <https://www.shriramproperties.com> / Phone: 080 4022 9999, Email: [cs.sp@shriramproperties.com](mailto:cs.sp@shriramproperties.com)

#### NOTICE OF POSTAL BALLOT

[NOTICE pursuant to the provisions of Section 110 of the Companies Act, 2013]

Members of the Company are hereby informed that pursuant to the provisions of Sections 108 and 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 (the "Act"), read with Rule 20 and 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the "Rules"), as amended from time to time and Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, (Listing Regulations), Secretarial Standards on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India (SS-2) and other relaxations and clarifications issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide General Circular Nos. 14/2020 dated April 08, 2020, 17/2020 dated April 13, 2020, 22/2020 dated June 15, 2020, 33/2020 dated September 28, 2020, 39/2020 dated December 31, 2020, 10/2021 dated June 23, 2021, 20/2021 dated December 8, 2021, 3/2022 dated May 5, 2022 and 11/2022 dated December 28, 2022 (MCA Circulars) and such other applicable laws and regulations, the Company has on Tuesday, June 13, 2023 completed the despatch of Postal Ballot Notice through electronic mode to the members, whose e-mail is registered with the KFin Technologies Limited ("KFin"), Company's Registrar and Transfer Agent/ Depository Participant(s) as on Friday, June 09, 2023 i.e. the 'Cut-Off Date' for seeking their approval by way of Ordinary Resolution for the following special business:

1. Approval for the proposed related party transaction with subsidiaries/joint ventures of the Company for the year 2023-2024. - Ordinary Resolution

The Postal Ballot Notice is available on the Company's website <https://www.shriramproperties.com/company-announcements> and on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited, National Stock Exchange of India Limited and NSDL at <https://www.bseindia.com>, <https://www.nseindia.com> and <https://www.evoting.nsdl.com> respectively. Members who do not receive the Postal Ballot Notice may download it from the above-mentioned websites.

The documents referred to in the Postal Ballot Notice are available for inspection electronically and members seeking to inspect such documents can send an e-mail to [cs.sp@shriramproperties.com](mailto:cs.sp@shriramproperties.com).

Instruction for remote e-voting:

In accordance with the applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs, the Company is providing to its members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed in the said Postal Ballot Notice only by electronic means ("e-voting"). The communication of the assent or dissent of the member would take place through remote e-voting process only. The Company has engaged the services of NSDL as the agency to provide e-voting facility. Members may cast their votes during the period mentioned here-in below:

Commencement of e-voting: 9.00A.M. (IST) on Wednesday, June 14, 2023. End of e-voting: 5.00 P.M. (IST) on Thursday, July 13, 2023.

E-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the e-voting module shall be forthwith disabled by NSDL upon expiry of the aforesaid period. Once the vote on the resolution is cast by the Member, the same cannot be changed subsequently.

Manner of e-voting by members holding shares in dematerialised mode and members who have not registered their email address has been provided in the Postal Ballot Notice. The manner in which persons who have forgotten the user ID and Password, can obtain/generate the same, has also been provided in the said Notice.

Members whose names appear in the register of members of the Company or in the register of beneficial owners maintained by the Depositories as on the Cut-Off Date, shall only be considered eligible for the purpose of e-voting.

Voting rights of a Member/ Beneficial Owner (in case of electronic shareholding) shall be in proportion to his/her/its share holding in the paid-up equity share capital of the Company as on the Cut-Off Date. A person who was not a Member of the Company on the Cut-Off Date should treat the Postal Ballot Notice for information purpose only.

Manner of registering/Updating e-mail address:

Members holding share(s) in dematerialised mode are requested to register/update their email ID with the Depository Participant(s) ("DP") where they maintain their demat accounts.

The Board of Directors has appointed Mr. P. Sriram (FCS: 4862 COP: 3310) and / or Ms. Nithya Pasupathi ( FCS 10601 COP 22562), Partners, SPNP & Associates, Practising Company Secretaries, as Scrutinizer for conducting the Postal Ballot voting process in a fair and transparent manner.

The resolution, if approved, shall be deemed to have been passed on the last date of e-voting i.e. Thursday, July 13, 2023. The results of e-voting will be declared on or before Monday, July 17, 2023 and will be displayed on Company's website <https://www.shriramproperties.com/company-announcements> and shall also be communicated to the Stock Exchanges where the equity shares of the Company are listed and National Securities Depository Limited, (NSDL). The Company will also display the results of the Postal Ballot at its Registered Office.

Contact details of the person responsible to address the grievances connected with the voting by postal ballot including voting by electronic means: Mr. D. Srinivasan, Company Secretary and Compliance Officer e-mail id: [cs.sp@shriramproperties.com](mailto:cs.sp@shriramproperties.com) Individual Share holders holding securities in demat mode may contact the respective helpdesk for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Date: June 13, 2023  
By the Order of the Board of Directors,  
Place: Bengaluru  
D. Srinivasan, Company Secretary and Compliance Officer, F5550.

### कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम

102-स्कूलाक्षर, कन्वोलासा, देवप्रयाग रोड, पौड़ी (मद्रास)  
कार्यालय- 01388-222387 फ़ैसा- 01388-222387 ईमेल- [separiupjn@gmail.com](mailto:separiupjn@gmail.com)  
फ़ैसा: 1845/निविदा कोटेसन/327 दिनांक: 12/06/2023

#### "ई-निविदा सूचना"

अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, पौड़ी के पत्रांक 1842/निविदा कोटेसन/326 दिनांक 12.06.2023 द्वारा अमृत 2.0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनप्रद पौड़ी के विकास खण्ड पौड़ी हेतु पौड़ी नगर पालिका पेयजल योजना (अमृत-2.0) के निर्माण कार्यों हेतु राज्य सरकार की वेबसाइट <http://www.uktenders.gov.in> के माध्यम से दिनांक 13.06.2023 से 27.06.2023 तक ई-निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं. निविदा की नियम एवं शर्तें उपरोक्त वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती हैं -

अधीक्षण अभियन्ता

### सिडकुल कॉन्कोर इन्फ्रा कम्पनी लिमिटेड SIDCUL CONCOR INFRA COMPANY LTD.

A Multi Modal Logistics Company  
भारत सरकार का समर्थन - कॉन्कोर एंड रिजल्ट्स का एक संयुक्त उद्यम  
(Govt. of India Undertaking, A Joint Venture of CONCOR & SIDCUL)  
Phone: 09944-257102; web: [www.sidculconcor.com](http://www.sidculconcor.com); CIN: U53000UR2019PLC000665

#### Tender Notice (E-tendering Mode Only)

E-tender cum reverse auction (in two bid system) for providing "Professional Services of Cargo Handling and Internal Transportation & Shifting of Containers/Cargo at SCIL/MMP Paragar, Uttarakhand" only through e-tendering mode.

Tender No: CON/AREA-ITCM&TP/Paragar/2023

Name of Work: Cargo Handling and Internal Transportation & Shifting of Containers/Cargo at SCIL/MMP Paragar, Uttarakhand

Estimated Cost: ₹ 2,80,36,800/- (Including GST) for 4+1 years

Period of Contract: 4+1 years

Earnest Money Deposit: ₹ 1,12,50,00/- through e-payment

Cost of Document: ₹ 1,00,00/- Inclusive of all taxes and duties through e-payment

Tender Processing Fee: ₹ 4,720/- Inclusive of all taxes and duties (Non-refundable) through e-payment

Date of Sale (Online): From 14.06.2023 to 15.06.2023 (up to 27.06.2023 16:00 hrs.)

Last Date & Time of Submission: On 28.06.2023 up to 15:00 hrs.

Date & Time of Opening: On 28.06.2023 at 15:30 Hrs.

\*Through e-payment.  
This tender notice is available on the web site [www.concorindia.com](http://www.concorindia.com). The bid document with details for eligibility criteria and other details can also be downloaded from the website ([www.tenderwizard.com/CCL](http://www.tenderwizard.com/CCL)). SIDCUL reserves the right to reject the tender and/or terminate the contract without assigning any reasons therefor. For complete details log on to [www.tenderwizard.com/CCL](http://www.tenderwizard.com/CCL).

### WAY FINDERS BRANDS LIMITED

CIN: U51909WB2014PLC204637  
Registered office: 204, Rashbehari Avenue, Kolkata - 700 029  
Tel: (033) 2301 4421  
Fax: (033) 22895748  
E-mail: [share.dept@bata.com](mailto:share.dept@bata.com)

**NOTICE** is hereby given to the members of Way Finders Brands Limited to register their email addresses / changes therein by sending signed request letter at the address mentioned above. Members holding shares in demat mode should update their email addresses directly with their depository participant.

For WAY FINDERS BRANDS LIMITED  
Sd/-  
NILESH KUMAR CHOUDHARY  
Director  
Place : Gurugram  
Date : 13.06.2023 DIN: 00670467

### BATA PROPERTIES LIMITED

CIN: U70101WB1987PLC042839  
Registered office: 6A, S. N. Banerjee Road, Kolkata - 700 013  
Tel: 033 23014421  
Fax: 033 22895748  
E-mail: [share.dept@bata.com](mailto:share.dept@bata.com)

**NOTICE** is hereby given to the members of Bata Properties Limited to register their email addresses / changes therein by sending signed request letter at the address mentioned above. Members holding shares in demat mode should update their email addresses directly with their depository participant.

For BATA PROPERTIES LIMITED  
Sd/-  
GUNJAN SHAH  
Director  
Place : Gurugram  
Date : 13.06.2023 DIN: 08525366

#### Notice for Loss of Share Certificate of ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited

Notice is hereby given that the following share certificate(s) of ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited has/have been lost and the legal heir(s) of the registered holder(s) is/are in the process of applying to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority for refund of the shares and dividend transferred to IEPF.

Folio No.	Name of Shareholder(s)	No. of Share	Share Certificate No(s).	Distinctive Nos.	
				From	No
R00053	RAGHIBIR SINGH BINDRA	166	5769	12106412	12106577

This notice is being issued as per Schedule III of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer, and Refund) Rules, 2017, as amended from time to time. The public are hereby warned against purchasing or dealing in any way, with the above share certificates. Any person(s) who has/have any claim in respect of the said share certificate(s) should lodge such claim with evidence to the company, at its Registered Office: ZF Commercial Vehicle Control Systems India Limited, Plot No. 3, (SP) II Main Road, Ambattur Industrial Estate, Chennai - 600058 (email id: [cvcs.info.india@zf.com](mailto:cvcs.info.india@zf.com)) or to its Share Transfer Agent, Integrated Registry Management Services Private Limited, "Kenesa Towers", 2<sup>nd</sup> Floor, No.1, Ramakrishna Street, North Usman Road, T Nagar, Chennai - 600017. (email id: [srirams@integratedindia.in](mailto:srirams@integratedindia.in)) within 15 days of publication of this notice, after which no claim will be entertained and the legal heir(s) of the registered holder(s) will apply to IEPF for refund of shares and dividends. Any person dealing with the above said shares will be doing so at their own risk.

Sd/-  
GEETANJALI BINDRA  
Date : 13.06.2023 73, Priya Enclave, Near, Karkardooma Court, Delhi-110092

### BOMBAY CYCLE & MOTOR AGENCY LIMITED

Regd Office: 534, Sardar Vallabhbhai Patel Road, Opera House, Mumbai - 400 007.  
CIN: L74999MH1919PLC000557  
Tel: 022-23612195/96/97, e-mail: [boma@boma.in](mailto:boma@boma.in),  
website: [www.boma.in](http://www.boma.in)

#### NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the equity shares of those members who have not exercised or claimed dividend for seven consecutive years or more are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF).

In compliance with the said Rules, the Company has dispatched individual notices to all the concerned Members whose shares are liable to be transferred to IEPF. Full details of such Members are made available on the Company's website at [www.boma.in](http://www.boma.in).

In this connection, the concerned Members may please note the following -

(a) For Members holding shares in physical form - The Company would issue new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF as per Rules & upon such issue, original share certificate(s) registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable.

(b) For Members holding shares in electronic form - Their demat account will be debited for the shares liable for transfer to IEPF.

In case the Company does not receive any valid claim from the concerned shareholders by September, 15, 2023, the Company shall with a view to comply with the Rules, transfer the unclaimed dividend and the corresponding equity shares to IEPF, without any further notice. No claim shall lie against the Company in respect of the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF. However, the unclaimed dividend and the shares transferred to IEPF including all the benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by the concerned shareholders from IEPF after following the procedure prescribed by the Rules.

In order to receive the correspondence, if any, from the Company in a timely manner, Members are requested to register their e-mail addresses with the RTA (in case of shares held in physical form) by sending a request on [csq\\_unit@icpfindia.in](mailto:csq_unit@icpfindia.in) and your Depository Participant(s) (in case of shares held in dematerialized form).

For Bombay Cycle & Motor Agency Ltd.,  
Sd/-  
Nidhi Agarwal  
Place: Mumbai  
Date: June 14, 2023  
Company Secretary & Compliance Officer

### BRITANNIA

#### BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED

(Corporate Identity Number: L15412WB1918PLC02964)  
Registered Office: 51A, Hungerford Street, Kolkata - 700 017  
Phone - 033 22874302/57 Fax: 033 22872501  
Website: [www.britannia.co.in](http://www.britannia.co.in) E-mail: [ld.investorrelations@britindia.com](mailto:ld.investorrelations@britindia.com)

#### NOTICE FOR TRANSFER OF EQUITY SHARE(S) TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF) AUTHORITY

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules), as amended, the Equity Share(s) of the Company in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for a period of seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the Demat account of the IEPF Authority.

Adhering to the various requirements as set out in the Rules, the Company has, so far transferred to the IEPF Authority, on respective due dates, all shares in respect of which dividend(s) for the financial year 2014-15 or before had remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more.

The Company has sent individual communications, at their registered address, to those shareholders concerned whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the financial year 2023-24, advising them to claim their unclaimed dividends by making an application to M/s. KFin Technologies Limited, the Company's Registrar and Share Transfer Agents. The details of the shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF Authority have been placed on the Company's website [www.britannia.co.in](http://www.britannia.co.in). The Shareholders concerned are requested to refer to the said website to verify the details of unclaimed dividends and the shares which are liable to be transferred to the IEPF Authority.

The shareholder(s) holding share(s) in physical form and whose share(s) are liable to be transferred to the IEPF Authority, may note that upon transfer of shares to IEPF Authority, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of share(s) held in Demat Form, the share(s), to the extent liable to be transferred, shall be debited from the shareholders' account.

If the Company does not receive any communication from the shareholders concerned by 29<sup>th</sup> August, 2023, the Company shall, with a view to comply with the requirements set out in the aforesaid Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority, without any further notice by way of corporate action by the due date as per procedure stipulated in the Rules.

The shareholders may note that upon transfer of the shares to IEPF Authority, including all benefits accruing on such shares, if any, the same can be claimed only from the IEPF Authority by making an online application to the IEPF Authority in Form IEPF-5 as prescribed under the Rules and the same is made available at IEPF website i.e. [www.iepf.gov.in](http://www.iepf.gov.in). Please note that no claim shall lie against the Company with respect to the unclaimed dividends and share(s) transferred to the IEPF pursuant to the IEPF Rules.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact Mr. Raj Kumar Kato, Assistant Vice President, M/s. KFin Technologies Limited, the Company's Registrar and Share Transfer Agents, at: Unit: Britannia Industries Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli Financial District, Serilingampally, Nanaknagar, Hyderabad - 500032, Tel: +91 40 67162222; Fax +91 40 23426814 (from 9.00 a.m. to 6.00 p.m.); Email: [einward.rs@kfintech.com](mailto:einward.rs@kfintech.com), [britannia@kfintech.com](mailto:britannia@kfintech.com)

For Britannia Industries Limited  
Sd/-  
Thulasiidass T V  
Company Secretary

Place: Bengaluru  
Date: 13<sup>th</sup> June, 2023

#### LIQUIDATION SALE NOTICE

FOR SALE OF ASSETS OF EXCEL GLASSES LIMITED (In Liquidation)  
Registered Office: Udaya Nagar, Pathirappally, Marappuzha, P. O. Aalappay, Kollam - 688521, Kerala.  
CIN: L26109KL1970PLC002283  
(Sale of Assets under Insolvency and Bankruptcy Code, 2016)

The undersigned Liquidator of Excel Glasses Limited (Corporate Debtor in Liquidation) appointed by the Hon'ble NCLT, Kollam Bench, vide order dated 21.10.2019, intends to sell the following immovable properties forming part of the Liquidation Estate of the Corporate Debtor through E-auction on "as is where is basis", "as is what is basis", "whatever there is basis" and "without recourse basis". Sale will be done by the undersigned through E-Auction services provided by National E-Governance Services Ltd (NeSL) [website: <https://nbid.nesl.co.in/app/login>].

Date and Time of 14th E-auction:	Friday, 14th July, 2023, 3 PM to 5 PM
Last Date and Time for submission of EOI including KYC documents, Eligibility Criteria documents, etc. by the Prospective bidder:	Up to Monday, 3rd July, 2023 by 5 PM
Date of declaration of Qualified Bidders(s):	Up to Wednesday, 5th July, 2023
Last date for submission of Declaration Forms and Earnest Money Deposit:	Up to Wednesday, 12th July, 2023 by 3 PM
Date and Time for inspection due diligence of assets under auction by the Qualified Bidders(s):	Up to Wednesday, 12th July, 2023 (with one-day prior intimation to Mr. Sudhanshu Pandey -Mob. - 9821916190 11:00 am -3:30 pm except Sundays and Kerala State Holidays).

Sl. No.	Description(Assets)	Reserve Price (Rs. in lakhs)	EMD (10% of Reserve Price) (Rs. in lakhs)
Block - 1	Land opposite to Infinity Campus, Pallipuram Village, Chathala Taluk, Alappuzha, Kerala - 688541 - Land Area - 1.22 acres - 4.337 sq. mts	92.7	9.27

Interested Bidders may refer to detailed terms and conditions and tender documents (Sale Process Memorandum) through website <https://nbid.nesl.co.in/app/login> and <http://www.excelglasses.com> and can also visit [www.nbi.gov.in](http://www.nbi.gov.in) for the sale auction notice. They can contact through Email: [sarvathirasa@nesl.com](mailto:sarvathirasa@nesl.com), [prspup@nesl.com](mailto:prspup@nesl.com), [saib@nesl.com](mailto:saib@nesl.com) or write to the undersigned at [rp.ravachaturvedi@gmail.com](mailto:rp.ravachaturvedi@gmail.com), contact numbers: Mr. Aravanthan SE +91- 9384676703, Mr. Neel Doshi +91- 9404000667 or can contact Mr. Sudhanshu Pandey Mob. No. +91-9821916190.

The Liquidator has the absolute right to accept or reject any or all offer(s) bids or adjourn/ postpone/ cancel the Auction or withdraw any property of portion thereof from the auction proceeding at any stage. Any revision in the sale notice will be uploaded on the Excel Glasses Limited website <http://www.excelglasses.com> and on <https://nbid.nesl.co.in/app/login>. It is requested to all the bidders to kindly visit the website regularly.

Sd/-  
Ravindra Chaturvedi  
Liquidator of Excel Glasses Limited (In Liquidation)  
Place: Mumbai  
Date: 14.06.2023  
Address: 31-E, BKC  
IBBI Regn. No. IBBI/PA-001/P-PO0732/2017-18/11339 [JAF valid upto 23.11.2023]  
Calicut, Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andhan (West), Mumbai - 400033

### YASH PAKKA

Packaging with a Soul

#### YASH PAKKA LIMITED

Regd Office: 2nd Floor, 24/57, Birhana Road, Kanpur -208001, Uttar Pradesh  
Corp Office: Yash Nagar, Ayodhya - 224135, Uttar Pradesh  
CIN: L24231UP1981PLC005294 | T: +91 5278 258174  
E: [connect@yashpakka.com](mailto:connect@yashpakka.com) | Website : <https://www.yashpakka.com>

#### NOTICE OF EXTRA-ORDINARY GENERAL MEETING, CUT-OFF DATE AND REMOTE E-VOTING INFORMATION TO THE MEMBERS

1. The Extra-Ordinary General Meeting ("EGM") of Yash Pakka Limited will be held through Video Conferencing ("VC") / Other Audio-Vision Means ("OAVM") on Wednesday, 5th July, 2023 at 10:00 a.m., in compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India 2019 India ("SEBI") Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular No. 3/2022 dated 5th May, 2022 read with General Circular No. 14/2020 dated 8th April, 2020, General Circular No. 17/2020 dated 13th April, 2020, General Circular No. 22/2020 dated 15th June, 2020, General Circular No. 33/2020 dated 28th September, 2020, General Circular No. 39/2020 dated 31st December, 2020, General Circular No. 10/2021 dated 23rd June, 2021, General Circular No. 20/2021 dated 8th December, 2021 and General Circular No. 11/2022 dated 28th December, 2022 and other applicable circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA") and SEBI (collectively referred to as "relevant circulars"), to transact the business set out in the Notice calling the EGM. Members will be able to attend the EGM through VC / OAVM through the CDSL E-Voting system. Members may access the same at <https://www.evoting.nsdl.com> under shareholder/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Company will be displayed.

2. In compliance with the relevant circulars, the Notice of the EGM along with explanatory statements and other documents required to be attached thereto, will be sent to all the Members of the Company whose email addresses are registered with the Company / Depository Participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at [www.yashpakka.com](http://www.yashpakka.com), website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility and e-voting system during the EGM i.e. <https://www.evoting.nsdl.com>).

3. **Manner of registering/ updating email addresses:**

- In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self-attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self-attested scanned copy of Aadhar Card) by email to [admin@skynetra.com](mailto:admin@skynetra.com) or [grievances@skynetra.com](mailto:grievances@skynetra.com).
- Members holding shares in dematerialised mode, who have not registered / updated their email addresses with their Depository Participant(s), are requested to register/ update their email addresses with the Depository Participant(s) with whom they maintain their demat accounts.
- Manner of casting vote(s) through e-voting:

- Members will have an opportunity to cast their vote(s) on the business as set out in the Notice of the EGM through electronic voting system ("e-voting").
- The manner of voting remotely ("remote e-voting") by members holding shares in dematerialised mode, physical mode, physical mode for members who have not registered their email addresses has been provided in the Notice of the EGM. The details will also be available on the website of the Company at [www.yashpakka.com](http://www.yashpakka.com).
- The facility for voting through electronic voting system will also be made available at the EGM and Members attending the EGM who have not cast their vote(s) by remote e-voting will be able to vote at the EGM.
- The login credentials for casting votes through e-voting shall be made available to the members through email. Members who do not receive email or whose email addresses are not registered with the Company/Depository Participant(s), may generate login credentials by following instructions given in the Notes to Notice of EGM.
- The same login credentials may also be used for attending the EGM through VC/OAVM.

5. Members are requested to carefully read all the Notes set out in the Notice of the EGM

# पुंछ व राजौरी से मादक पदार्थ की बड़ी खेप बरामद

जम्मू, 13 जून (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर के पुंछ तथा राजौरी जिले में दो किलोग्राम हेरोइन सहित बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जव्त किए गए हैं।

पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इन

अभियानों में मादक पदार्थ के तीन तस्करो को भी गिरफ्तार किया गया। राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमृतपाल सिंह ने बताया कि पुलिस दल ने सोमवार को दारहाली पुल पर एक निजी वाहन को रोका और कश्मीर से सीमावर्ती शहर में तस्करी कर लाई जा रही 3.8 किलोग्राम चरस

बरामद की। वाहन में सवार तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

वहीं पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विनय शर्मा ने बताया कि सोमवार को सीमावर्ती जिले के बतालाखरा गांव के पास वन क्षेत्र से दो किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई।

### Muthoot Mercantile Limited

Regd. Office: Muthoot Floors, Opp.V & C Hospital, Thycaud,Trivandrum,Kerala - 695014

## GOLD AUCTION NOTICE

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold ornaments pledged with the undermentioned branches of the company in different branches of Punalur for the period which was overdue for redemption and have not been redeemed so far in spite of repeated notices, will be auctioned on 24-06-2023 at the specified branch as per the details given below.

Spledge Branch: BABATHAN SINGH CHOWK (Ph: 0471-2774800, 7994807666).

Specification Nos: Pghwara:1117,1118,1119,1206,1443, MandiAhmedgarh:1908, Malerkotta:1513,1542,1624,1679,1683,1689,1699,1703,1707,1709.Sirhind:1727,1745,1746,1750, 1748,1751,1752,1753,1754,1755,1756,1757,1758,1759,1760,1761,1762,1763,1764,1765,1766,1767,1768,1769,1770,1771,1772,1773,1774,1775,1776,1777,1778,1779,1780,1781,1782,1783,1784,1785,1786,1787,1788,1789,1790,1791,1792,1793,1794,1795,1796,1797,1798,1799,1800,1801,1802,1803,1804,1805,1806,1807,1808,1809,1810,1811,1812,1813,1814,1815,1816,1817,1818,1819,1820,1821,1822,1823,1824,1825,1826,1827,1828,1829,1830,1831,1832,1833,1834,1835,1836,1837,1838,1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847,1848,1849,1850,1851,1852,1853,1854,1855,1856,1857,1858,1859,1860,1861,1862,1863,1864,1865,1866,1867,1868,1869,1870,1871,1872,1873,1874,1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896,1897,1898,1899,1900,1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910,1911,1912,1913,1914,1915,1916,1917,1918,1919,1920,1921,1922,1923,1924,1925,1926,1927,1928,1929,1930,1931,1932,1933,1934,1935,1936,1937,1938,1939,1940,1941,1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952,1953,1954,1955,1956,1957,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965,1966,1967,1968,1969,1970,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1994,1995,1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023,2024,2025,2026,2027,2028,2029,2030,2031,2032,2033,2034,2035,2036,2037,2038,2039,2040,2041,2042,2043,2044,2045,2046,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054,2055,2056,2057,2058,2059,2060,2061,2062,2063,2064,2065,2066,2067,2068,2069,2070,2071,2072,2073,2074,2075,2076,2077,2078,2079,2080,2081,2082,2083,2084,2085,2086,2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103,2104,2105,2106,2107,2108,2109,2110,2111,2112,2113,2114,2115,2116,2117,2118,2119,2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127,2128,2129,2130,2131,2132,2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141,2142,2143,2144,2145,2146,2147,2148,2149,2150,2151,2152,2153,2154,2155,2156,2157,2158,2159,2160,2161,2162,2163,2164,2165,2166,2167,2168,2169,2170,2171,2172,2173,2174,2175,2176,2177,2178,2179,2180,2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189,2190,2191,2192,2193,2194,2195,2196,2197,2198,2199,2200,2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209,2210,2211,2212,2213,2214,2215,2216,2217,2218,2219,2220,2221,2222,2223,2224,2225,2226,2227,2228,2229,2230,2231,2232,2233,2234,2235,2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246,2247,2248,2249,2250,2251,2252,2253,2254,2255,2256,2257,2258,2259,2260,2261,2262,2263,2264,2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272,2273,2274,2275,2276,2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285,2286,2287,2288,2289,2290,2291,2292,2293,2294,2295,2296,2297,2298,2299,2300,2301,2302,2303,2304,2305,2306,2307,2308,2309,2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317,2318,2319,2320,2321,2322,2323,2324,2325,2326,2327,2328,2329,2330,2331,2332,2333,2334,2335,2336,2337,2338,2339,2340,2341,2342,2343,2344,2345,2346,2347,2348,2349,2350,2351,2352,2353,2354,2355,2356,2357,2358,2359,2360,2361,2362,2363,2364,2365,2366,2367,2368,2369,2370,2371,2372,2373,2374,2375,2376,2377,2378,2379,2380,2381,2382,2383,2384,2385,2386,2387,2388,2389,2390,2391,2392,2393,2394,2395,2396,2397,2398,2399,2400,2401,2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2411,2412,2413,2414,2415,2416,2417,2418,2419,2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426,2427,2428,2429,2430,2431,2432,2433,2434,2435,2436,2437,2438,2439,2440,2441,2442,2443,2444,2445,2446,2447,2448,2449,2450,2451,2452,2453,2454,2455,2456,2457,2458,2459,2460,2461,2462,2463,2464,2465,2466,2467,2468,2469,2470,2471,2472,2473,2474,2475,2476,2477,2478,2479,2480,2481,2482,2483,2484,2485,2486,2487,2488,2489,2490,2491,2492,2493,2494,2495,2496,2497,2498,2499,2500,2501,2502,2503,2504,2505,2506,2507,2508,2509,2510,2511,2512,2513,2514,2515,2516,2517,2518,2519,2520,2521,2522,2523,2524,2525,2526,2527,2528,2529,2530,2531,2532,2533,2534,2535,2536,2537,2538,2539,2540,2541,2542,2543,2544,2545,2546,2547,2548,2549,2550,2551,2552,2553,2554,2555,2556,2557,2558,2559,2560,2561,2562,2563,2564,2565,2566,2567,2568,2569,2570,2571,2572,2573,2574,2575,2576,2577,2578,2579,2580,2581,2582,2583,2584,2585,2586,2587,2588,2589,2590,2591,2592,2593,2594,2595,2596,2597,2598,2599,2600,2601,2602,2603,2604,2605,2606,2607,2608,2609,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2616,2617,2618,2619,2620,2621,2622,2623,2624,2625,2626,2627,2628,2629,2630,2631,2632,2633,2634,2635,2636,2637,2638,2639,2640,2641,2642,2643,2644,2645,2646,2647,2648,2649,2650,2651,2652,2653,2654,2655,2656,2657,2658,2659,2660,2661,2662,2663,2664,2665,2666,2667,2668,2669,2670,2671,2672,2673,2674,2675,2676,2677,2678,2679,2680,2681,2682,2683,2684,2685,2686,2687,2688,2689,2690,2691,2692,2693,2694,2695,2696,2697,2698,2699,2700,2701,2702,2703,2704,2705,2706,2707,2708,2709,2710,2711,2712,2713,2714,2715,2716,2717,2718,2719,2720,2721,2722,2723,2724,2725,2726,2727,2728,2729,2730,2731,2732,2733,2734,2735,2736,2737,2738,2739,2740,2741,2742,2743,2744,2745,2746,2747,2748,2749,2750,2751,2752,2753,2754,2755,2756,2757,2758,2759,2760,2761,2762,2763,2764,2765,2766,2767,2768,2769,2770,2771,2772,2773,2774,2775,2776,2777,2778,2779,2780,2781,2782,2783,2784,2785,2786,2787,2788,2789,2790,2791,2792,2793,2794,2795,2796,2797,2798,2799,2800,2801,2802,2803,2804,2805,2806,2807,2808,2809,2810,2811,2812,2813,2814,2815,2816,2817,2818,2819,2820,2821,2822,2823,2824,2825,2826,2827,2828,2829,2830,2831,2832,2833,2834,2835,2836,2837,2838,2839,2840,2841,2842,2843,2844,2845,2846,2847,2848,2849,2850,2851,2852,2853,2854,2855,2856,2857,2858,2859,2860,2861,2862,2863,2864,2865,2866,2867,2868,2869,2870,2871,2872,2873,2874,2875,2876,2877,2878,2879,2880,2881,2882,2883,2884,2885,2886,2887,2888,2889,2890,2891,2892,2893,2894,2895,2896,2897,2898,2899,2900,2901,2902,2903,2904,2905,2906,2907,2908,2909,2910,2911,2912,2913,2914,2915,2916,2917,2918,2919,2920,2921,2922,2923,2924,2925,2926,2927,2928,2929,2930,2931,2932,2933,2934,2935,2936,2937,2938,2939,2940,2941,2942,2943,2944,2945,2946,2947,2948,2949,2950,2951,2952,2953,2954,2955,2956,2957,2958,2959,2960,2961,2962,2963,2964,2965,2966,2967,2968,2969,2970,2971,2972,2973,2974,2975,2976,2977,2978,2979,2980,2981,2982,2983,2984,2985,2986,2987,2988,2989,2990,2991,2992,2993,2994,2995,2996,2997,2998,2999,3000,3001,3002,3003,3004,3005,3006,3007,3008,3009,3010,3011,3012,3013,3014,3015,3016,3017,3018,3019,3020,3021,3022,3023,3024,3025,3026,3027,3028,3029,3030,3031,3032,3033,3034,3035,3036,3037,3038,3039,3040,3041,3042,3043,3044,3045,3046,3047,3048,3049,3050,3051,3052,3053,3054,3055,3056,3057,3058,3059,3060,3061,3062,3063,3064,3065,3066,3067,3068,3069,3070,3071,3072,3073,3074,3075,3076,3077,3078,3079,3080,3081,3082,3083,3084,3085,3086,3087,3088,3089,3090,3091,3092,3093,3094,3095,3096,3097,3098,3099,3100,3101,3102,3103,3104,3105,3106,3107,3108,3109,3110,3111,3112,3113,3114,3115,3116,3117,3118,3119,3120,3121,3122,3123,3124,3125,3126,3127,3128,3129,3130,3131,3132,3133,3134,3135,3136,3137,3138,3139,3140,3141,3142,3143,3144,3145,3146,3147,3148,3149,3150,3151,3152,3153,3154,3155,3156,3157,3158,3159,3160,3161,3162,3163,3164,3165,3166,3167,3168,3169,3170,3171,3172,3173,3174,3175,3176,3177,3178,3179,3180,3181,3182,3183,3184,3185,3186,3187,3188,3189,3190,3191,3192,3193,3194,3195,3196,3197,3198,3199,3200,3201,3202,3203,3204,3205,3206,3207,3208,3209,3210,3211,3212,3213,3214,3215,3216,3217,3218,3219,3220,3221,3222,3223,3224,3225,3226,3227,3228,3229,3230,3231,3232,3233,3234,3235,3236,3237,3238,3239,3240,3241,3242,3243,3244,3245,3246,3247,3248,3249,3250,3251,3252,3253,3254,3255,3256,3257,3258,3259,3260,3261,3262,3263,3264,3265,3266,3267,3268,3269,3270,3271,3272,3273,3274,3275,3276,3277,3278,3279,3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289,3290,3291,3292,3293,3294,3295,3296,3297,3298,3299,3300,3301,3302,3303,3304,3305,3306,3307,3308,3309,3310,3311,3312,3313,3314,3315,3316,3317,3318,3319,3320,3321,3322,3323,3324,3325,3326,3327,3328,3329,3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339,3340,3341,3342,3343,3344,3345,3346,3347,3348,3349,3350,3351,3352,3353,3354,3355,3356,3357,3358,3359,3360,3361,3362,3363,3364,3365,3366,3367,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3374,3375,3376,3377,3378,3379,3380,3381,3382,3383,3384,3385,3386,3387,3388,3389,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,3400,3401,3402,3403,3404,3405,3406,3407,3408,3409,3410,3411,3412,3413,3414,3415,3416,3417,3418,3419,3420,3421,3422,3423,3424,3425,3426,3427,3428,3429,3430,3431,3432,3433,3434,3435,3436,3437,3438,3439,3440,3441,3442,3443,3444,3445,3446,3447,3448,3449,3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459,3460,3461,3462,3463,3464,3465,3466,3467,3468,3469,3470,3471,3472,3473,3474,3475,3476,3477,3478,3479,3480,3481,3482,3483,3484,3485,3486,3487,3488,3489,3490,3491,3492,3493,3494,3495,3496,3497,3498,3499,3500,3501,3502,3503,3504,3505,3506,3507,3508,3509,3510,3511,3512,3513,3514,3515,3516,3517,3518,3519,3520,3521,3522,3523,3524,3525,3526,3527,3528,3529,3530,3531,3532,3533,3534,3535,3536,3537,3538,3539,3540,3541,3542,3543,3544,3545,3546,3547,3548,3549,3550,3551,3552,3553,3554,3555,3556,3557,3558,3559,3560,3561,3562,3563,3564,3565,3566,3567,3568,3569,3570,3571,3572,3573,3574,3575,3576,3577,3578,3579,3580,3581,3582,3583,3584,3585,3586,3587,3588,3589,3590,3591,3592,3593,3594,3595,3596,3597,3598,3599,3600,3601,3602,3603,3604,3605,3606,3607,3608,3609,3610,3611,3612,3613,3614,3615,3616,3617,3618,3619,3620,3621,3622,3623,3624,3625,3626,3627,3628,3629,3630,3631,3632,3633,3634,3635,3636,3637,3638,3639,3640,3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657,3658,3659,3660,3661,3662,3663,3664,3665,3666,3667,3668,3669,3670,3671,3672,3673,3674,3675,3676,3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683,3684,3685,3686,3687,3688,3689,3690,3691,3692,3693,3694,3695,3696,3697,3698,3699,3700,3701,3702,3703,3704,3705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,3713,3714,3715,3716,3717,3718,3719,3720,3721,3722,3723,3724,3725,3726,3727,3728,3729,3730,3731,3732,3733,3734,3735,3736,3737,3738,3739,3740,3741,3742,3743,3744,3745,3746,3747,3748,3749,3750,3751,3752,3753,3754,3755,3756,3757,3758,3759,3760,3761,3762,3763,3764,3765,3766,3767,3768,3769,3770,3771,3772,3773,3774,3775,3776,3777,3778,3779,3780,3781,3782,3783,3784,3785,3786,3787,3788,3789,3790,3791,3792,3793,3794,3795,3796,3797,3798,3799,3800,3801,3802,3803,3804,3805,3806,3807,3808,3809,3810,3811,3812,3813,3814,3815,3816,3817,3818,3819,3820,3821,3822,3823,3824,3825,3826,3827,3828,3829,3830,3831,3832,3833,3834,3835,3836,3837,3838,3839,3840,3841,3842,3843,3844,3845,3846,3847,3848,3849,3850,3851,3852,3853,3854,3855,3856,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877,3878,3879,3880,3881,3882,3883,3884,3885,3886,3887,3888,3889,3890,3891,3892,3893,3894,3895,3896,3897,3898,3899,3900,3901,3902,3903,3904,3905,3906,3907,3908,3909,3910,3911,3912,3913,3914,3915,3916,3917,3918,3919,3920,3921,3922,3923,3924,3925,3926,3927,3928,3929,3930,3931,3932,3933,3934,3935,3936,3937,3938,3939,3940,3941,3942,3943,3944,3945,3946,3947,3948,3949,3950,3951,3952,3953,3954,3955,3956,3957,3958,3959,3960,3961,3962,3963,3964,3965,3966,3967,3968,3969,3970,3971,3972,3973,3974,3975,3976,3977,3978,3979,3980,3981,3982,3983,3984,3985,3986,3987,3988,3989,3990,3991,3992,3993,3994,3995,3996,3997,3998,3999,4000,4001,4002,4003,4004,4005,4006,4007,4008,4009,4010,4011,4012,4013,4014,4015,4016,4017,4018,4019,4020,4021,4022,4023,4024,4025,4026,4027,4028,4029,4030,4031,4032,4033,4034,4035,4036,4037,4038,403